

## Yuva Sur Sartaj (YSS) प्रतियोगिता - हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अखिल भारतीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता

### उद्देश्य:

- खोज, प्रोत्साहित, और समर्थन: भारतीय शास्त्रीय संगीत में अगली पीढ़ी की प्रतिभा की पहचान और पोषण करें।
- राष्ट्रीय मंच पर प्रतिभा प्रदर्शित करें: उभरते कलाकारों को अपने जुनून और प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करें।
- भारतीय शास्त्रीय संगीत विशेषज्ञों को जोड़ें: नवोदित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों को विशेषज्ञों द्वारा मान्यता प्राप्त करने का अवसर दें।
- संगीत के सपनों को पूरा करें: महत्वाकांक्षी गायकों के लिए उनके संगीतिक सपनों को प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करें।

### पंजीकरण प्रक्रिया:

1. मोबाइल नंबर दर्ज करें: प्राप्त ओटीपी का उपयोग करके अपने नंबर की पुष्टि करें।
  2. पंजीकरण फॉर्म भरें: व्यक्तिगत विवरण प्रदान करें और सबमिट करें।
  3. प्रदर्शन वीडियो सबमिट करें: पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करें। निर्देश:
- सटीक संपर्क विवरण (ईमेल और व्हाट्सएप) प्रदान करें।
  - 21 साल से कम उम्र के उम्मीदवार अपने माता-पिता या अभिभावक के संपर्क विवरण का उपयोग कर सकते हैं।
  - जन्म तिथि और पहचान सत्यापन के लिए स्वीकार्य दस्तावेज: आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस।
  - सुनिश्चित करें कि प्रदर्शन वीडियो दिशानिर्देशों का पालन करता है (10-15 मिनट, सभी वीडियो प्रारूप समर्थित, अधिकतम आकार 2 जीबी)।
  - पंजीकरण करें [YSS Registration](https://yuvasursartaj.in/registration-process) पर। अधिक जानें - <https://yuvasursartaj.in/registration-process>

### प्रतियोगिता के चरण: चरण 1: ऑनलाइन आवेदन

- प्रदर्शन प्रकार: हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन (खयाल)।
- संगत: तबला और तानपुरा (ऑनलाइन आवेदन स्वीकार्य)।
- अवधि: 10-15 मिनट।
- प्रतिबंध: हारमोनियम, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, नाट्य संगीत, अर्ध शास्त्रीय संगीत, बॉलीवुड प्रेरित संगीत नहीं।

### चरण 2: ऑनलाइन ऑडिशन

- प्रारूप: वास्तविक समय ऑनलाइन मंच।
- डेमो ऑडिशन: परिचित करने के लिए आयोजित किया जाएगा।
- प्रदर्शन प्रकार: हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन (खयाल)।
- संगत: तबला और तानपुरा (ऑनलाइन आवेदन स्वीकार्य)।
- अवधि: 10-15 मिनट।
- दिशानिर्देश: चयनित उम्मीदवारों को प्रदान किए जाएंगे।

### चरण 3: लाइव प्रदर्शन

- स्थान: मुंबई।
- प्रारूप: न्यायाधीशों की उपस्थिति में लाइव।

- प्रदर्शन प्रकार: हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन (खयाल)।
- संगत: तबला, तानपुरा और अन्य वाद्ययंत्र (उम्मीदवार की इच्छा के अनुसार)।
- अवधि: 15-20 मिनट।
- दिशानिर्देश: चयनित उम्मीदवारों को प्रदान किए जाएंगे।

#### पुरस्कार:

- विजेता: ₹ 1,50,000 नकद + ₹ 1,50,000 मूल्य की शास्त्रीय गायन प्रशिक्षण और परामर्श समर्थन।
- प्रथम उपविजेता: ₹ 1,00,000 नकद + ₹ 1,00,000 मूल्य की शास्त्रीय गायन प्रशिक्षण और परामर्श समर्थन।
- द्वितीय उपविजेता: ₹ 50,000 नकद + ₹ 50,000 मूल्य की शास्त्रीय गायन प्रशिक्षण और परामर्श समर्थन।

#### नियम और शर्तें:

- पात्रता:
  - समूह 1: आयु 15-22 वर्ष (जन्म तिथि 1 जनवरी 2002 - 31 जनवरी 2009 के बीच)।
  - समूह 2: आयु 23-30 वर्ष (जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 - 31 दिसंबर 2001 के बीच)।
- प्रमाणपत्र: सभी लाइव प्रदर्शन प्रतिभागियों को प्रतिभागिता प्रमाणपत्र मिलेगा। अधिक जानें - <https://yuvasursartaj.in/rules-and-regulations>

#### न्यायाधीश:

- कौशिकी चक्रवर्ती: पटियाला घराना, कलात्मक अन्वेषण और नवाचार के लिए प्रसिद्ध।
- राहुल देशपांडे: ग्वालियर और जयपुर-अतरौली घराने, परंपरा और नवाचार का संगम।
- संजीव अभ्यंकर: मेवाती घराना, तकनीकी कुशलता और भावनात्मक प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध। अधिक जानें - <https://yuvasursartaj.in/>

विस्तृत दिशानिर्देश, अपडेट और पंजीकरण के लिए, [युवा सुर सरताज वेबसाइट](https://yuvasursartaj.in/) पर जाएं।

**भाग लेने की अंतिम तिथि** - 31 अगस्त 2024।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: [info@yuvasursartaj.in](mailto:info@yuvasursartaj.in)

डेडिया म्यूजिक फाउंडेशन के बारे में DMF कलाकारों, छात्रों और उत्साही लोगों को समर्थन, शिक्षा और अवसर प्रदान करके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। अधिक जानें - <https://www.dedhiamusicfoundation.in/>